

निबंधन एवं शर्तें
वरिष्ठ परामर्शदाता (वैक्सीन एवं लॉजिस्टिक्स)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एनएचएसआरसी), नई दिल्ली उपर्युक्त पद के लिए योग्य अभ्यर्थियों से पूर्णतः है संविदा के आधार पर आवेदन आमंत्रित करता है।

भूमिका एवं उत्तरदायित्व:

1. लॉजिस्टिक्स, माल सूची, भंडार निगरानी के लिए, सामान की सुचारु आपूर्ति के लिए, क्षमता से अधिक और कम भंडारण नहीं होने की निगरानी के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों तथा जीएमएसडी के साथ समन्वय करना।
2. निर्धारित अनुसूची के अनुसार राज्य प्रेषिती स्थानों एवं सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो (जीएमएसडी) को वस्तुओं की समय से आपूर्ति करने के लिए अधिप्राप्ति प्रभाव के साथ समन्वय करना तथा राज्य प्रेषिती स्थानों पर आपूर्ति हेतु सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो के लिए रिलीज़ आदेश तैयार करना।
3. आवंटित समय, मात्रा और गुणवत्ता के अनुसार निर्धारित अनुसूची प्रेषिती के अनुसार वस्तुओं की समय से सुपुर्दगी के लिए आपूर्तिकर्ता के साथ समन्वय करना।
4. समय अनुसूची, गुणवत्ता तथा मात्रा के अनुसार आपूर्तियों के पुष्टिकरण हेतु राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों तथा जीएमएसडी के साथ घनिष्ठ समन्वय करना।
5. वस्तुओं की अधिप्राप्ति और आपूर्ति के लिए यूनिसेफ के साथ संपर्क करना तथा अनुवर्तन।
6. विदेशी आपूर्तियों के लिए सीमा शुल्कों से संबंधित आवश्यक दस्तावेज तैयार करने के लिए यूनिसेफ तथा घरेलू लॉजिस्टिक्स भागीदारों के साथ अनुवर्तन।
7. भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार प्रतिरक्षण प्रभाग के लिए बजट की आपूर्ति एवं उपलब्धता के अनुसार सामग्री अनुदान का बजट तैयार करने में सहायता करना।
8. भारत सरकार की वित्तीय नियमावली के अनुसार, प्रतिरक्षण अनुभाग के लिए सामग्री अनुदान बजट के आवंटित मुख्य एवं लघु शीर्षों और उप-शीर्षों में बजट विवरण तैयार करने में सहायता करना।
9. भारत सरकार के विज्ञान दिशा निर्देशों के अनुसार व्यय की बुकिंग के लिए राज्यों से वैक्सीन पहुंचने की रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु राज्यों के साथ घनिष्ठ अनुवर्तन।
10. महीने में की गई वास्तविक आपूर्तियों के अनुसार, आपूर्ति एवं लागत मूल्यांकन शीट तैयार करना तथा उसे विभिन्न श्रेणियों में श्रेणीबद्ध करना।
11. आपूर्तित वस्तुओं पर हुए वस्तु संबंधी व्यय के समायोजन के लिए सभी संगत दस्तावेज तैयार करना।
12. सभी आंतरिक तथा बाह्य हितधारकों (बजट, एनएचएम वित्त, संकलन प्रभाग इत्यादि के साथ घनिष्ठ समन्वय एवं अनुवर्तन तथा हितधारकों द्वारा सभी प्रश्नों का उत्तर देना।
13. सभी सक्षम प्राधिकारियों के अनुमोदन के अनुसार तथा महीने में हुए वस्तु व्यय के बजट शीर्ष विवरण के अनुसार मंजूरियां तैयार करना।
14. जीएमएसडी तथा राज्य और जिला वैक्सीन लॉजिस्टिक्स प्रबंधकों के साथ समीक्षा तंत्रों में समन्वय करना।
15. नेमी प्रतिरक्षण में सुधार लाने के लिए बृहत्त योजना तैयार करने तथा व्यापक कार्यनीतिक योजना का विकास करने में अपर आयुक्त (प्रतिरक्षण) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सहायता करना।
16. कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) के मूल्यांकन में सहायता करना।
17. अपर आयुक्त (प्रतिरक्षण) द्वारा सौंपा गया अन्य कोई कार्य।

पात्रता:

1. प्रबंधन अथवा अन्य किसी संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा।
2. वैक्सीन, सिरिंजों तथा कोल्ड चेन की आपूर्ति से संबंधित नेमी प्रतिरक्षण की आयोजना और रख-रखाव में राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम 5 वर्ष का अनुभव।
3. कंप्यूटर एप्लीकेशनों, विशेष रूप से एमएस ऑफिस का ज्ञान एवं उसमें प्रवीणता।
4. अंग्रेजी लिखने और बोलने का ज्ञान तथा हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान अपेक्षित।
5. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन/आरसीएच में राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर पर कार्य कर चुके अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी।
6. अभ्यर्थियों का उच्च गुणवत्ता का कार्य प्रकाशित हुआ है अथवा किसी विशेष क्षेत्र में कार्य का अनुभव है, उनकी औपचारिक शैक्षिक अर्हता, अनुभव और आयु में छूट दी जा सकती है।

वांछनीय:

1. वैक्सीन, सिरिंजों तथा गोल्ड चेन की नियमित प्रतिरक्षण संबंधी आपूर्तियों की आयोजना और उनके रख-रखाव का अनुभव।

आयु: आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 55 वर्ष। गहन क्षेत्रीय दौरे करने के लिए अभ्यर्थी का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए।

पारिश्रमिक सीमा: अनुभव एवं योग्यता के अनुसार 90,000/- रुपए से 1,50,000/- रुपए प्रतिमाह।

स्थान: नई दिल्ली राज्यों और जिलों की यात्रा करने की सहमति के साथ।

आवेदन करने के लिए:

अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे एनएचएसआरसी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए भर्ती हेतु सूचना के साथ संलग्न आवेदन पत्र को डाउनलोड कर विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र को **17-Jun-2020** तक rch.recruitment@gmail.com पर केवल ई-मेल कर दें। किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। कृपया सुनिश्चित करें कि आवेदन पत्र पर आवेदन किए गए पद का उल्लेख किया गया है, अन्यथा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।